

3rd Week of September 1982 to the Western Kosi Canal Project suggested that the entire water from the Kosi Canal at the Kamla River crossing be pumped into the reservoir formed by the existing weir across the Kamla River at Jaynagar and to enlarge the existing irrigation system to accommodate the increased discharge.

Studies have been conducted by the Bihar State Government on the various suggestions/proposals and it has been reported by Bihar that (a) pumping of the entire flow of the Western Kosi Canal proves not only costly but also is impracticable at this stage when adequate assured power supply is not available. (b) with the functioning of the Western Kosi Canal large area of the Kamla Weir Command would be covered by this system and the balance area can conveniently be provided with irrigation from the existing Kamla

Weir with modifications of the gate system.

They also state that at a future date it may be possible to resort to pumping of water from the Western Kosi Canal to improve the irrigation system and that conjunctive use of ground water would also further improve the irrigation facilities in the area.

(c) Making available water east of Bhutahi Balan is dependent on the completion of the works in the Nepal area. Work of reach in Nepal is behind schedule and is expected to be completed by June 1984. However, Bihar Government would be making efforts to make available water east of Kamla River by June 1985 according to the present programme.

The cumulative progress achieved upto September 1982 is given below:—

Works	Total work involved	Work done
Earth Work (lakh cu. m.)	141.86	51.86
Lining (lakh sq. m.)	27.74	16.15
Land acquisition (ha.)	1592.15	696.94
Structures: (Nos.)	356	6 completed 10 ar in progress

(d) and (e). It is reported that the Hon'ble M. P. called on the Chief Minister of Bihar on 29-11-1982 when senior officers of Bihar were present. In their discussion the proposal in respect of pumping water from the Western Kosi Canal referred to in Part (a) above and question of expeditious completion of the Western Kosi Canal referred to in Part (c) above are understood to have been discussed.

गाजीपुर जिले में सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि

114. श्री जैनुल बशर : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के लिए

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं पर चल रहे कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) प्रत्येक मामले में इन परियोजनाओं के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सिंचाई एक राज्य-विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन,

अन्वेषण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में, समग्र राज्य के लिए दी जाती है और यह विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को लाभ पहुंचाने वाली चार सिंचाई परियोजनाएं हैं जिन पर व्यय राज्य द्वारा किया जा रहा है। तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय, स्कीमों से अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता तथा 1981-82 तक सृजित की गई क्षमता तथा पूर्ण किए जाने के संभावित समय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इनमें से, शारदा सहायक परियोजना की मानीट्रिंग केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है। इस परियोजना पर कार्य की वर्तमान प्रगति नीचे दी गई है :—

गिरजा वराज, सम्पर्क नहर, शारदा बराज तथा फीडर चैनल के निर्माण-कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वितरण-प्रणाली (नए और पुनरुर्षण दोनों प्रकार के निर्माण-कार्य) पर कार्य प्रगति पर है। 15,971 किलोमीटर लम्बी वितरणियों और शाखाओं में से, 12,671 किलोमीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 18,828 कि० मी० की लम्बाई में चिनाई कार्यों में से, 11,232 कि० मी० की लम्बाई में कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 426 करोड़ रुपये है। 1982-83 के अन्त तक संचयी व्यय 375.73 करोड़ रुपये होगी।

विवरण

(करोड़ रुपए / 000 हैक्टियर)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमान	1980-81 के दौरान हुआ व्यय	1981-82 के दौरान हुआ व्यय	1982-83 के दौरान हुआ व्यय (प्रत्याशित)	1982-83 के अन्त तक हुआ संचयी व्यय (प्रत्याशित)	अन्ततः सृजनीय क्षमता	1981-82 तक सृजित की गई क्षमता	पूर्ण का संभावित समय
----------	-----------------	---------------	---------------------------	---------------------------	--	--	----------------------	-------------------------------	----------------------

1	शारदा सहायक परि-योजना	426.00	25.46	23.75	23.00	375.73	1582	1460	छठी योजना
2	नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	20.34	0.95	0.93	0.70	13.49	72.92	—	सातवीं योजना
3	जमानिया पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	15.53	0.83	1.03	1.00	4.81	25.72	—	सातवीं योजना
4	देवफली पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना	27.88	2.17	1.51	1.00	15.69	73.60	31.30	सातवीं योजना